

Reg: 123

36

32

From,

Sri R.K. Malaviya
Joint Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Moradabad

No. 1347 /IV-2449 /Adm(A) Dated: Allahabad: 28-1-97

Subject:- Grant of Motor Car advance to Sri Vinod Kumar, Addl. Civil Judge (Jr. Div.) Moradabad

sir,

With reference to your letter/endorsement No. 1032/96 / Admin
dated 30.11.96 on the above subject, I am

directed to say that application of Sri Vinod Kumar, Addl. Civil Judge (Jr. Div.)
Moradabad has been registered for grant of the above advance
and it shall be considered on the basis of 'First come first
served'. At present, no amount is available with the Court for
the purpose. In the meantime the officer may be asked to furnish
details of the motor car intended to be purchased and in case
he has to purchase the car from a private party, as and when
the advance is sanctioned to him he should obtain Court's
prior permission for the same, so that the amount of advance
may be utilised by him within the stipulated period.

J.R.(M)

May issue?

AK. Saravain

12.1.97

Dr. Jaiswal

17.1.97

[Signature]
17/1

Yours faithfully,

[Signature]
JOINT REGISTRAR

Verma/-

3-1-97

5/11/97

35

31

Reg 123

5/11/97

145
2449

10/11/97

15/1/97

प्रेमक,

विनोद कुमार,

प्रथम अपर सिविल जज & जू. डि. सम्मेल,

जनपद - मुरादाबाद ।

सेवा में,

माननीय निबन्धाक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद ।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,,

जनपद - मुरादाबाद ।

विषय :- मोटर कार खर खरने हेतु अग्रिम दानराशि हेतु प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

साबित्य निवेदन है कि अटोहस्ताहारी को मोटर कार खर खरने हेतु

एडवांस दानराशि की आवश्यकता है । अटोहस्ताहारी कार एडवांस हेतु अपना आवेदन पत्र निश्चित प्रारूप में पेशित कर रहा है ।

अतः आप से साबुरोहा प्रार्थना है कि प्रार्थनों को कार खर खरने हेतु अग्रिम दानराशि शीघ्र अति शीघ्र स्वीकृत कराने की कृपा करें । आपकी अति कृपा होगी ।

सादर ।

JR.(M)

SOADCA

J.R.(M)

5/11/97

दिनांक : 24.10.96

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद

पत्रांक: 1032/96 प्रशा. 10 मुरादाबाद: दिनांक: 30-11-1996

निबन्धाक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित ।

भवदीय

विनोद कुमार

प्रथम अपर सिविल जज & जू. डि. सम्मेल

सम्मेल

जनपद - मुरादाबाद ।

प्रभारी जिला जज
मुरादाबाद ।

9/C DISTRICT JUDGE
MORADABAD.

A.K.J.

17/11

Registered at
Serial No. 460
On 12.1.97

मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम धनराशि को स्वीकृति हेतु

1. प्रार्थी का पूरा नाम व पद :- विनोद कुमार ^{प्रथम} ~~विनोद कुमार~~ अपर अधीक्षक
जज (प्र.डि.) सुप्रीम कोर्ट (पुरावापाट)
2. स्थाई अथवा अस्थायी ः यदि प्रार्थी अस्थायी कर्मचारी है, तो उसको अस्थायी कर्मचारी की जमानत सिविलीरिटो वाले फार्म - अस्थायी पर सक्षम अधिकारी/कर्मचारी को दिलवाना चाहिए, सिविलीरिटो खंड में उतनी ही ₹ - 90,000 का अग्रिम धनराशि
3. अग्रिम धनराशि की धनराशि :- 1,75,000/- ✓
4. प्रार्थी का मासिक मूल वेतन :- 3100=00 ✓
5. प्रार्थी की निर्बतन की तिथि :- 15-10-2024
6. जामिन का पूरा नाम व पूरा पता :- जी. सतीश चंद्र शर्मा, अपर मुख्य-आपेकमानिस्टर
वाराणसी
7. विभाग में नियुक्ति की तिथि :- 8-6-90
8. प्रार्थी की जन्म तिथि :- 15-10-1964 ✓
9. जामिन की निर्बतन की तिथि :- 1-1-2016
10. क्या स्थाई कर्मचारी लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय सेवा में अनुमोदित है जी हाँ -
11. यदि कोई बाहन अग्रिम धन लिया हो तो उसका विवरण :- स्कूटर हडवॉस
12. प्रथम अग्रिम
 - क) स्वीकृति आदेश की संख्या तथा तिथि :- दि 29-7-93 (अपर-आपेकमानिस्टर)
 - ख) स्वीकृति धनराशि :- 12,500/- कोर्ट के आदेश
 - ग) तिथि जब उसका मूगतान ब्याज सहित हो जायेगा या हो गया हो। सिस्टम 1997 तक इस ब्याज को जी.सी. देय ही।
- द्वितीय अग्रिम
 - क) स्वीकृति आदेश की संख्या व तिथि :- जी नहीं -
 - ख) स्वीकृत धनराशि :-
 - ग) तिथि व उसका मूगतान होने की सम्भावना है :-
12. क्या प्रार्थी नई गाड़ी खरीदना चाहता है, यदि हाँ तो गाड़ी कब तक मिलने की सम्भावना है :- जी हाँ, हडवॉस मिलेपर
अथवा
- यदि प्रार्थी पुरानी गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसका पूरा सबूत कि अग्रिम मिलने के एक माह के अन्दर उसका सबभाग हो जायेगा साथ ही जो पुराना जी नहीं

Revised

बाहन खरीदा जा रहा है, उसका बीमा हो सकता है
अथवा नहीं, यह स्पष्ट किया जाये :-

13. सम्बन्धित राज्य कर्मचारी/अधिकारी ने पुरानी
गाडी खरीदने के लिए गवर्नमेंट रुल्स के अनुसार
सक्षम अधिकारी को पूर्ब अनुमति प्राप्त कर ली है, यदि
हां तो अनुमति प्रश्न को एक प्रति संलग्न की जाये :-

काग़ नहीं


14. मोटर साइकिल, स्कूटर, मोटर कार को अंकलन :-

§ 1§ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने मोटर साइकिल/
मोटर कार खरीदने हेतु अग्रिम स्वीकृती की शर्तों
के अनुसार गाडी का बीमा एवं रेहन माने निश्चित
अबधि के अन्दर निषमनेदिषा गया है, नहीं करता,
तो पुरी धनराशि एक ही बार में ब्याज सहित
वापिस कर दूंगा ।

§ 2§ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि किन्हीं परिस्थितियों
में समय से पूर्ब या समय पर सेवा मुक्त कर दिया जाऊ तो
शासन को यह अधिकार होना कि वह किसी भी तरह से
स्वीकृत शेष धनराशि को मुझे बसूल कर लेने ।


§ 3§ मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि आज दिनांक को
मेरे बच्चों की संख्या 1 है ।

दिनांक: 24.10 - 1996.


प्रार्थी के हस्ताक्षर
(विनायक गुप्ता)

- 1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना ठीक है ।
- 2. प्रमाणित किया जाता है कि कासम 2;4, 10 के सामने दौ गई
सूचनाओं ठीक हैं ।

दिनांक: 24-10-96.


हस्ताक्षर व पद नाम अध्यापक विभागाध्यक्ष
सहित अधिकारी को मिहर (जि.सि.डि.)
[२-१००]
[सहायक अध्यापक]

FORMS

FORM NO - 25 - C .
(See Chapter XI Paragraph - 242)

Form of bond to be executed by a permanent Government Servant as
Surety of a temporary Government Servant granted an advance.

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we Vinod Kumar Shastri

Badri Narayan Dubey

s/o _____ Resident of Leely Harbale

Compound Samthal, Distt. Morena

(hereinafter called the " Principal) AND Shri. Satish chandra

Sharma s/o Shri R.P. Sharma (Ac. Jm. Barabanki)

resident of hereinafter called " the Surety) are held and firmly

bound to the Governor of the Uttar Pradesh (hereinafter called -

" The Governor ") in the sum of Rs. 1,75,000/-

to be paid to the Governor , his Successors and or assigns for which

payment well and truly to be made we bind ourselves , our heirs ,

executors , administrators and representative jointly and Severally.

WHEREAS the Principal holds a temporary appointment as Civil Judge

(J.D.) under the Government of Uttar Pradesh

(Hereinafter called , the State Government ") and has recosted

the State Government to grant himan advance of Rs . 1,75,000/-

to the purpose of purchasing a (Name of conveyance). CAR.

AND WHEREAS the Surety who holds a permanent appointment

as Civil Judge (J.D.) under the State Government has agreed

to indemnify the payment by the principal of the sum with interest

thereon and in case of default to meet the danerency by having

deduction made from his pay.

AND WHEREAS the State Government have paid the said advance

to the Principal under the condition that it shall be refunded

with interest by the Principal in accordance with provision of the

Account Rules of the State Government (hereinafter referred to as

" the Rules) and in default by the Surety by having deductions

made from his pay or otherwise as considered proper by the State Govt.

NOW THE CONDITION of the above written bond is such that if the Principal or the money has repaid the said amount with interest thereon due under the said Rules , then above written bond or obligation shall be void and no effect otherwise the same shall and remain in full force and effect.

PROVIDED ALWAYS that if at any time the Principal ceases to be in the service the State Government , the whole or so much or so much of the said Principal of Rs. 1,75,000/- ~~shall~~ ^{shall} then remain unpaid the other with interest thereon , when shall have uccrued thereon , shall immodiately become due and payable to the State Government and be recovered from the Surety.

AND it is hereby agreed and declared that without prejudice to any remedy provided therefore the State Govt. may on a certificate of the Secretary to the State Govt. in the Administrative Department (which shall be final , conclusive and binding on Principal and the Surety) recover all dues hereunder as arrears of Land revenue .

IN WITNESS to the above written bond and to all the terms and conditions herein contained we have signed hereunder this 24-10-96 of _____ Nineteen hundred and _____.

Signed by _____ Principal [Signature]

In the presence of
 Surety [Signature]
 ↓
 (1) . Shri: S.C. Sharma
 Address
 V. A.C.M. - Bareilly
 and of
 (2) . Shri: Ganga Ram
 Address
 Samsal ; (Maraduboo)

(2) — Rakesh Kumar Agrawal
 Reader, Dist-Adml. Civil Judge
 (Jr. Dr.) Samsal Distt M.P.